



**ADVIK CAPITAL LTD.**

(A BSE Listed Company)

**CIN:** L65100DL1985PLC022505

**Web:** [www.advikcapital.com](http://www.advikcapital.com)

**Email.:** [info@advikcapital.com](mailto:info@advikcapital.com)

**Tel.:** +91-9289119981

**October 21, 2024**

Listing Compliance Department

**BSE Limited**

Phirozee Jeejeebhoy Towers

Dalal Street Fort,

Mumbai-400001

**Scrip Code: 539773**

**Sub: Newspaper Advertisement – Notice for Basis of Allotment of Right Issue**

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed copy of newspaper advertisement for Notice for Basis of Allotment of Rights Issue published in Business Standard (English Edition) and Business Standard (Hindi Edition) newspapers dated October 21, 2024, for your ready reference.

You are requested to take the information on record and oblige.

Thanking You,

Yours faithfully,

*for Advik Capital Limited*

**DEEPIKA** Digitally  
signed by  
**MISHRA** DEEPIKA  
MISHRA

**Deepika Mishra**

**Company Secretary and Compliance Officer**

**Regd. Office:** Vikas House, 34/1, Vikas Path, East Punjabi Bagh, New Delhi – 110026

# Subjecting employees to excess stress is illegal



**TRUTH BE TOLD**  
**HARSH ROONGTA**

The 1993 movie *A Few Good Men* tells the story of two U.S. Marines court-martialed for the death of a fellow Marine, Private Santiago, at Guantanamo Bay, Cuba. Following orders, the Marines carried out a code red, an illegal punishment for Santiago's perceived failings. It is later revealed Santiago had heart disease, but the base's toxic, macho culture labelled him a slacker. The superior officer is arrested for ordering an illegal punishment. While the Marines are cleared of murder, they are found guilty of unbecoming conduct. The plot highlights how unchecked social rules and the lack of grievance redressal can be a fatal mix. I recount this in the context of the tragic death of Anna Perayil, a young chartered accountant who died of heart disease worsened by overwork. Around that time, I spoke to Aarvi, a 26-year-old client who shared her experience at an event management company, where she worked gruelling 17-hour days for 14 months. Constant travel, sleepless nights, and a relentless pace wore her down. She initially enjoyed the adrenaline rush but soon tired of the incessant workload and the toxic work culture.

When asked why she stayed on for so long despite having no financial pressures, Aarvi revealed that peer pressure and fear of being labelled a quitter and a loser kept her there. She feared other jobs would be equally demanding. She only left after an illness forced her to go home and recuperate, which gave her the necessary time to reflect. Today, she works for a social sector company and enjoys the impact her organisation makes on fellow citizens. Her pay is sufficient to sustain an independent, comfortable lifestyle. The job also leaves her time to pursue other interests.

Aarvi admitted she was unaware of labour laws, such as limits on working hours, mandatory breaks, and earned leave provisions, which exacerbated her helplessness. The fortuitous illness gave her the breathing space to realise she could make a conscious choice.

This is reminiscent of how workplace sexual harassment was once shrouded in silence until the 1997 Supreme Court judgement in the Vishaka case set guidelines for interpreting sexual harassment at the workplace. It enforced a grievance redressal ecosystem that victims could easily access. Social attitudes took time to adjust, but today most organisations, including small and medium enterprises, are sensitised on this issue.

The issue of unreasonable working hours and stress needs to be

highlighted similarly. Employees must know that unreasonable demands on this score are illegal. Companies should provide accessible grievance redressal mechanisms. Laws like the Shops and Establishment Act should be emphasised in employee induction programmes. Initially, larger companies will become sensitised to these issues and it will then spread to smaller organisations gradually. Employees who value work-life balance can seek help if they are mistreated for resisting excessive

workloads. One way to encourage transparency is for large companies to report audited HR (Human Resources) metrics, including

employee turnover, satisfaction, and complaints and resolution data on issues related to sexual harassment or workload. This data could guide job seekers toward companies that value work-life balance.

Truth be told, while societal norms often favour conformity, allowing useful changes to emerge—like providing a safe space for handling the grievances of non-conformists—is a must for a robust system to evolve and keep up with changing norms. The loss of young Anna's life is a tragedy. If this tragedy shifts workplace attitudes, it won't have been in vain.

*The writer heads Fee-Only Investment Advisors LLP, a Sebi-registered investment advisor; X (formerly Twitter): @harshroongta*

## FESTIVAL OFFERS ON HOME LOANS

# Avoid teaser rates that reset upwards after a few months

Compare loans from lenders on a comprehensive set of parameters, not just the offers

HIMALI PATEL

Last year, Rajesh Arora (name changed on request), a 40-year-old Noida-based businessman, took a loan during the festival season because the interest rate being offered appeared attractive. However, what he realised later was that the low interest rate was applicable for only a year, after which the rate moved up.

During the festival season, the demand for home loans typically rises as many families look to acquire a new house.

This year is no different, with the market abuzz with several enticing housing loan offers.

According to a report by Omniscience Capital, a smallcase manager, the Indian housing finance market grew by around 25 per cent annually between FY22 and FY24.

It is further projected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 15-20 per cent until 2030.

Borrowers need to examine home loan offers closely on several parameters to avoid Arora's fate.

### What's being offered?

One of the most common offers during the festival season is a partial or full waiver of processing fees.

"This can lead to savings of ₹10,000-50,000, depending on the loan size," says Adhil Shetty, chief executive officer, BankBazaar.com.

Another popular offer is a special interest rate. "Lenders lower the spread, reducing the loan cost by 5-10 basis points. However, the reduction is usually time-bound, and the lender may reset the spread after that interval," says Shetty.

Abhishek Kumar, a Securities and Exchange Board of India (Sebi)-registered investment advisor and founder, SahajMoney.com, highlights that apart from zero legal and valuation charges, lenders offer loan-to-value (LTV) ratios as high as

## MANY LENDERS HAVE WAIVED PROCESSING FEES

Offers from banks/HFCs



Note: Last date to avail the festival offer may vary from one bank to another. Compiled by BankBazaar.com from respective bank's and HFC's website

90 per cent.

### Real and superficial benefits

Experts stress the importance of opting for stable and transparent loan terms.

"Offers with lower spreads over marginal cost of funds-based lending rates (MCLR) or repo-linked loan rates (RLLR) are preferable to teaser loans, where the spread increases after 1-2 years," says Kumar.

Another point Kumar highlights is that many of these special offers may be available only to borrowers with high credit scores, and not to everyone. Shetty adds that many of these offers may be available only to fresh loan applicants, and not those looking to refinance (there can be exceptions to this).

A reduction in interest rate, especially from banks, is a more meaningful offer than a waiver of processing fee.

"Bank discounts typically persist for the entire loan tenure, meaning a discount of just 10-50 basis points (bps) can lead to substantial long-term savings," says Aditya Mishra, in contrast, private banks' monthly

**Bank of Maharashtra:**  
Interest: Starts at 8.35%; nil processing fee; longer tenure

**Union Bank**  
Interest: 8.35% per annum onwards; zero processing fee

**Bank of Baroda**  
Interest: Starts at 8.40%; nil processing fee; longer tenure

**UC Housing Finance**  
Interest: 50% concession on processing fee

**SBI:** Concessional interest rate across various loan products; processing fee waived on home loan

reducing method means that even if the EMI is paid on the 10th, the principal is not reduced until the end of the month. This leads to additional interest on the higher principal for an extra 20 days. "Over a loan tenure of 15 to 20 years, the monthly reducing method can lead to significantly higher interest payment," says Mishra.

### Tips for borrowers

Experts advise starting the loan search with lenders that borrowers already have existing relationships with, whether for deposits, loans, or credit cards. "One should also compare loan features across different lenders on financial marketplaces," says Ratan Chaudhary, head of home loans, Paisabazaar.

When choosing the loan tenure, borrowers should consider how much EMI they can afford and how it aligns with their other financial goals. "Shorter tenures lead to lower interest payments but higher EMIs, and vice versa," says Chaudhary.

Avoid overextending your home purchase budget just because a higher loan amount is available. "Don't let your total EMIs exceed 35 per cent of your take-home income," says Kumar.

Carefully review the loan's terms and conditions. Go with a lender that offers greater flexibility on prepayment. "Some lenders set a low threshold for prepayments but limit the number of times you can prepay in a year. Others allow monthly prepayments but have a higher threshold," says Shetty.

Besides a comfortable EMI, have adequate financial backup. "Missing payments due to job loss or financial emergencies can result in penalties, a lower credit score, and difficulty in securing future loans," says Chaudhary.

*The writer is a Mumbai-based independent journalist*

### ADVIK CAPITAL LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Quick Credit Limited' in New Delhi on November 14, 1985 as a public limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Delhi and Haryana at New Delhi. Our Company was granted the Certificate for Commencement of Business on November 20, 1985 by the Registrar of Companies, Delhi and Haryana at New Delhi. Subsequently, the name of our Company was changed to 'DU-Lite Industries Limited' and a fresh Certificate of Incorporation was granted by the Registrar of Companies, Delhi and Haryana at New Delhi on September 20, 2010. The name of the Company was changed again to 'Advik Industries Limited' and our Company received a fresh certificate of incorporation which was granted by the Registrar of Companies, Delhi and Haryana at New Delhi on February 24, 2011. Finally, the name of our Company was changed to 'Advik Capital Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was granted by the Registrar of Companies, Delhi at Delhi on July 7, 2017. For further details of our Company, please refer to "General Information" beginning on page 45 of this letter of offer.

**Corporate Identity Number: L65100DL1985PLC022505**

**Registered Office:** G-3, Vikas House, 34/1, East Punjabi Bagh, Sec - III, West Delhi, New Delhi, India - 110026

**Contact person:** Deepika Mishra, Company Secretary and Compliance Officer

**Telephone:** +91 92891 19980 | **E-mail id:** advikcapital@gmail.com | **Website:** https://advikcapital.com

---

**PROMOTERS OF OUR COMPANY**

**MR. VIKAS GARG & MS. SEEMA GARG**

---

**ISSUE OF UP TO 19,98,05,013 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH OF OUR COMPANY (THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 2.50/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 1.50/- PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UPTO ₹4995.13 LAKHS ONA RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 14 EQUITY SHARE FOR EVERY 30 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE EQUITY SHARES IS ₹2.50/- (2.50) TIME THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 194 OF THIS LETTER OF OFFER.**

---

**BASIS OF ALLOTMENT**

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Tuesday, September 24, 2024 and after extension issue was closed on Monday, October 14, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, October 01, 2024. Out of the total 7068 Applications for 20,66,65,667 Rights Equity Shares, 1438 Applications for 63,94,478 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 5630 for 18,03,66,825 Rights Equity Shares, which was 90.27% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on October 17, 2024 in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue, the Rights Issue Committee of the Company has on October 17, 2024, approved the allotment of 18,03,66,825 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, Nil Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

**1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:**

Applicants	Number of valid applications received	Number of Rights Equity Shares against Rights Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares against Additional Equity Shares Applied (B)	Total Rights Equity Shares (A+B)
Eligible Equity Shareholders	5526	7,37,19,568	2,60,42,601	9,97,62,169
Renounees	104	11,19,996	7,94,84,660	8,06,04,656
<b>Total</b>	<b>5630</b>	<b>7,48,39,564</b>	<b>10,55,27,261</b>	<b>18,03,66,825</b>

**2. Information regarding total Applications received (Including ASBA):**

Applicants	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
	Apppl	Equity Shares	Amount (Rs.)	Apppl	Equity Shares	Amount (Rs.)	Apppl	Equity Shares	Amount (Rs.)
Eligible Equity Shareholders	5,559	11,99,15,048	29,97,87,620	33	2,01,52,879	5,03,82,197.5	5,526	9,97,62,169	24,94,05,422.5
Renounees	104	8,06,04,656	20,15,11,640	0	0	0.00	104	8,06,04,656	20,15,11,640
Rejected Bid	1,405	61,45,963	1,53,64,907.5	1,405	61,45,963	1,53,64,907.5	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,068</b>	<b>20,66,65,667</b>	<b>51,66,64,167.5</b>	<b>1,438</b>	<b>2,62,98,842</b>	<b>6,57,47,105</b>	<b>5,630</b>	<b>18,03,66,825</b>	<b>45,09,17,062.5</b>

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the investors, as applicable, has been completed on October 17, 2024. The instructions for unbidding of funds in case of ASBA Applications were issued to SCBs on October 17, 2024. The listing application was executed with BSE on October 18, 2024 respectively. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form will be completed by October 22, 2024. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unbidding of ASBA Accounts" on page 219 of the Letter of Offer. The trading is expected to commence on or before October 25, 2024. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements will be given to NSDL & CDSL on October 21, 2024.

**INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALIZATION FORM.**

**DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI:**  
The Draft Letter of Offer was not required to be filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations, 2018 as the size of issue was less than ₹5,00,00,000 lakhs.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of BSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the BSE" on page 186 of the Letter of Offer.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated September 07, 2024.

**THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.**

MANAGER TO THE ISSUE	ADVISORS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
 <b>Fastrack Finsec</b> Category-1 Merchant Banker  <b>FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED</b> CIN: U65191DL2010PTC200381 Office No. V-116, 1st Floor, New Delhi House, Barakhamba Road, New Delhi 110001 <b>Telephone:</b> 011-43029809 <b>Website:</b> www.ftfinsec.com <b>Email:</b> mb@ftfinsec.com <b>SEBI Registration No.:</b> INM000012500 <b>Contact Person:</b> Ms. Sakshi	 <b>HEXAXIS</b> ADVISORS TO THE ISSUE  <b>HEXAXIS ADVISORS LIMITED</b> CIN: U74999DL2019PLC357568 40, RPS, Near Apeejay School, Sheikh Sarai Phase-I, New Delhi- 110017 <b>Telephone:</b> 011-40503037 <b>Website:</b> www.hexaxis.in <b>Email:</b> mail@hexaxis.in <b>Contact Person:</b> Mr. Pankaj K. Gupta	 <b>Skyline</b> Financial Services Pvt. Ltd.  <b>SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED</b> D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 <b>Telephone:</b> 011-40450193-97 <b>Email:</b> ipo@skylinert.com <b>Website:</b> www.skylinert.com <b>Email:</b> grievances@skylinert.com <b>SEBI Registration No.:</b> INR000003241 <b>Contact Person:</b> Mr. Anuj Rana

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post-issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked in ASBA process, ASBA account number and the Designated Branch of the SCBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip and copy of the e-acknowledgement. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 194 of the Letter of Offer.

**Disclaimer:** Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of company at <https://advikcapital.com/>, and at website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 22 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

For ADVIK CAPITAL LIMITED, Sd/-  
Deepika Mishra  
Company Secretary and Compliance Officer

**Date :** 19.10.2024  
**Place :** New Delhi

**IIFL HOME LOAN**  
**IIFL Home Finance Limited**  
**CIN: U65993MH2006PLC166475**

Regd. Office -IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No. B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane-400604. Tel: (91-22) 3929 4000 | Fax: (91-22) 2580 6654  
Website: www.iiflhomeloans.com | Email: secretarialhfc@iiflhomeloans.com

---

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Amount in crores except otherwise stated

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
		30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	983.60	797.53	3,293.59
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	414.86	320.30	1,328.21
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	414.86	320.30	1,328.21
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	318.97	249.23	1,026.84
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	324.67	248.03	1,019.34
6	Paid up Equity Share Capital	26.34	26.34	26.34
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	7,026.07	5,998.00	6,421.06
8	Securities Premium Account (included in Sl. No.7-Reserves)	2,969.65	2,969.65	2,969.65
9	Net worth	7,052.41	6,024.34	6,447.40
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	16,867.54	15,566.12	17,683.61
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	Not applicable	Not applicable	Not applicable
12	Debt Equity Ratio (in-times)	2.39	2.58	2.74
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)			
	1. Basic: (in Rs.)	121.08	94.60	389.77
	2. Diluted: (in Rs.)	119.65	94.60	388.53
14	Capital Redemption Reserve	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Debt Redemption Reserve	Not applicable	Not applicable	Not applicable
16	Debt Service Coverage Ratio [(PBT + Interest Expended+ Principal collected from customers during the year)/(Interest Expended + Principal repayment of the borrowings during the year)]	Not applicable	Not applicable	Not applicable
17	Interest Service Coverage Ratio [(PBT + Interest Expended)/(Interest Expended )]	Not applicable	Not applicable	Not applicable

# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules/ AS Rules, whichever is applicable.

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results for the quarter ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on website of National Stock Exchange of India Limited (NSE): [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), BSE Limited (BSE): [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and can be accessed on the Company's website (URL: <https://www.iiflhomeloans.com/financials>)
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to National Stock Exchange of India Limited (NSE): [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), BSE Limited (BSE): [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and can be accessed on website of National Stock Exchange of India Limited (NSE): [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), BSE Limited (BSE): [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- The Accounting policies adopted in the preparation of the financial results are consistent with those followed in the previous period/year unless otherwise stated.
- Previous year's/periods figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to the current period's presentation.

By order of the Board  
For IIFL Home Finance Limited

Monu Ratra  
Executive Director & CEO  
DIN: 07406284

**Date:** October 18, 2024  
**Place:** Mumbai

# हैवेल्स व पॉलिकैब के मार्जिन पर दबाव

मार्जिन की कमी कंपनियों के आय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। दोनों कंपनियों ने 16 से 30 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि दर्ज की लेकिन मार्जिन में पहले की तुलना में 130 से 290 आधार अंकों की कमी

राम प्रसाद साहू  
मुंबई, 20 अक्टूबर

वित्त वर्ष 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में सबसे बड़ी सूचीबद्ध इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन कंपनियों में शामिल हैवेल्स इंडिया और पॉलिकैब इंडिया का प्रदर्शन लगभग एक जैसा रहा। सितंबर तिमाही में दोनों कंपनियों ने मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की लेकिन मुनाफे के अनुमानों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी।

दोनों कंपनियों ने 16 से 30 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि दर्ज की। लेकिन मार्जिन एक साल पहले की तुलना में 130 से 290 आधार अंक तक घट गया। हालांकि ब्रोकर इनके दीर्घावधि परिदृश्य को लेकर उत्साहित हैं और उन्होंने राजस्व अनुमान बढ़ा दिए हैं। लेकिन मार्जिन दबाव की वजह से आय अनुमानों में कमी की है। केबल ऐंड वायर (सीएंडडब्ल्यू) व्यवसाय दोनों कंपनियों के लिए विकास का मुख्य वाहक बना रहा। हैवेल्स ने इस सेगमेंट (कुल राजस्व में करीब 40 प्रतिशत योगदान) में सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

भारत में 25-26 प्रतिशत भागीदारी के साथ संगठित वायर केबल ऐंड वायर सेगमेंट में बाजार दिग्गज पॉलिकैब ने एक साल पहले की तिमाही के मुकाबले 24 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। केबल ऐंड वायर सेगमेंट का कंपनी के कुल राजस्व में 85 प्रतिशत योगदान है। इस सेगमेंट में वायर ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी वजह माल कम होने की वजह से डीलरों के पास उसका स्टॉक बढ़ना रहा। हैवेल्स के प्रबंधन ने संकेत दिया है कि शहरी बाजारों में मांग मजबूत बनी हुई है जबकि ग्रामीण बाजार वित्त वर्ष 2024 की सुस्ती के बाद सुधार दर्ज कर रहे हैं। बाजार की नजर त्योहारी सीजन पर रहेगी। हालांकि पॉलिकैब को वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में वृद्धि की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। उसे सरकारी खर्च, निजी कंपनियों से लगातार निवेश और मजबूत रियल एस्टेट क्षेत्र से मदद मिल सकती है।

केबल ऐंड वायर के अलावा तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिकल वस्तु क्षेत्र में पॉलिकैब की बिक्री सालाना आधार पर 18 प्रतिशत तक



## हैवेल्स, पॉलिकैब की कारगर रणनीति

	2024-25 के एकीकृत आंकड़े	
	हैवेल्स इंडिया	पॉलिकैब इंडिया
राजस्व (करोड़ रुपये)	21,315	22,572
सालाना बदलाव (%)	14.7	25.1
परिचालन लाभ (करोड़ रुपये)	2,355	2,892
सालाना बदलाव (%)	27.8	16.1
मार्जिन (%)	11.0	12.8
बदलाव (आधार अंक)	110	-100
शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये)	1,621	2,075
सालाना बदलाव (%)	27.6	16.3

स्रोत : विश्लेषक की रिपोर्ट

बढ़ी, खासकर उसे पंखों के सेगमेंट में मदद मिली जिसका पिछले साल न्यून आधार था। पॉलिकैब को मजबूत ऑनलाइन बिक्री से भी मदद मिली। जहां रियल एस्टेट में मांग की सुस्ती के बाद सुधार दर्ज कर रहे हैं। बाजार की नजर त्योहारी सीजन पर रहेगी। हालांकि पॉलिकैब को वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में वृद्धि की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। उसे सरकारी खर्च, निजी कंपनियों से लगातार निवेश और मजबूत रियल एस्टेट क्षेत्र से मदद मिल सकती है।

जेफरीज रिसर्च में विश्लेषक सोनाली सालगांवकर का मानना है कि पॉलिकैब का केबल ऐंड वायर राजस्व वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2027 तक 20 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। कंपनी के इस राजस्व को खासकर अनुमानित पूंजीगत खर्च में सुधार, बुनियादी

ढांचा विकास और भारत में आवासीय क्षेत्र में तेजी का फायदा मिलेगा। ब्रोकरेज ने इस शोयर पर 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है। लेकिन उसने मार्जिन दबाव की वजह से अपने आय अनुमान 2 प्रतिशत तक घटा दिए हैं।

हैवेल्स के इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता ड्यूरेबल कारोबार में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसे त्योहारी मांग और ब्रांड की बढ़ती सीकार्यता के कारण विभिन्न श्रेणियों (फैन, छोटे घरेलू उपकरण और वाटर हीटर) में मजबूत बढ़ोतरी से मदद मिली।

लॉयड सेगमेंट में कंपनी ने मौसमी आधार पर कमजोर समझी जाने वाली तिमाही के

दौरान नॉन-रूम एयर कंडीशनर (एसी) पोर्टफोलियो के साथ सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वैन्यू वृद्धि दर्ज की। इस पोर्टफोलियो में रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और एलईडी फैनल, रूम एसी उपकरण शामिल हैं। कंपनी सेगमेंट स्तर पर नुकसान को वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के 73 करोड़ रुपये से घटाकर 22 करोड़ रुपये पर लाने में सफल रही।

हालांकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने हैवेल्स इंडिया का ईपीएस अनुमान वित्त वर्ष 2025-27 के लिए 3 प्रतिशत तक कम कर दिया है। लेकिन विश्लेषक पार्थ गाला को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में बाजार की इस अग्रणी कंपनी का परिचालन प्रदर्शन बेहतर होगा। यह अनुमान हैवेल्स के विविध उत्पाद पोर्टफोलियो पर आधारित है, जिसमें 70 प्रतिशत घरेलू विद्युत संकेट्स, लॉयड पोर्टफोलियो की बढ़ती लोकप्रियता है।

दोनों कंपनियों के लिए बड़ी निराशा सितंबर तिमाही के दौरान मार्जिन में कमी थी। हैवेल्स का मुनाफा मार्जिन घटकर 8.3 प्रतिशत रह गया जो 130 आधार अंक की गिरावट है। यह गिरावट मुख्य रूप से विज्ञापन खर्च में सालाना आधार पर 54 प्रतिशत की वृद्धि और मानव श्रम लागत में 21 प्रतिशत वृद्धि की वजह से आई।

पॉलिकैब का मार्जिन 295 आधार अंक तक घटकर 11.5 प्रतिशत रह गया। बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबाव और केबल और वायर सेगमेंट में ज्यादा मार्जिन वाले घरेलू वितरण व्यवसाय से कम योगदान की वजह से मार्जिन में कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा कम मार्जिन वाले अन्य/इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय में मजबूत वृद्धि के साथ साथ विज्ञापन और कमचारी लागत में बढ़ोतरी की वजह से तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिकल वस्तु खंड में नुकसान से भी मार्जिन दबाव को बढ़ावा मिला।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि हाई-मार्जिन घरेलू केबल और वायर व्यवसाय से योगदान में सुधार और ईपीसी व्यवसाय से कम योगदान से 2025-26 में मार्जिन में सुधार को बढ़ावा मिल सकता है।

## आईपीओ से पहले चमकी वारी एनर्जीज

बुंडे मोटर के बड़े आईपीओ से चुकने वाले खुदरा और समृद्ध निवेशक अब सोलर पैनल निर्माता वारी एनर्जीज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कंपनी के शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम 90 फीसदी से ज्यादा पर चल रहा है जो सितंबर में आए बजाज हाउसिंग के बाद 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा वाले किसी आईपीओ में सबसे अधिक है। वारी के आईपीओ में 3,600 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी हो रहे हैं और 721 करोड़ रुपये का ओएफएस है। शेयर की कीमत वित्त वर्ष 23-24 की कंपनी की आय के 33 गुना पर है। बीएस

# यूको बैंक

## UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

प्रधान कार्यालय : 10, बी.टी.एम. परमपू, कोलकाता-700 001

### हमारा वादा है सरल, सक्षम और प्रभावी

**यूको गृह ऋण**

ब्याज दर 8.45% (वर्ष दर ब्याज)

**यूको कार ऋण**

ब्याज दर 8.30% (वर्ष दर ब्याज)

**पिंक बस्केट**

पूरा जीवन भर की सुरक्षा के साथ

**यूको 333**

बचत और निवेश का सर्वोत्तम विकल्प

1800-103-0123 | 7666399400 | 8334001234 | सीकेवाईसी कार्ड के लिए मिस्ट कॉल : 7799022129

30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित (समीक्षित) वित्तीय परिणाम				
क्र. सं.	विवरण	30.09.2024 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	30.09.2023 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय (निवल)	707143	586661	2511987
2	अवधि का निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवाद और / या असाधारण मदों के पूर्व)	93876	63979	256885
3	अवधि का कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और / या असाधारण मदों के पश्चात)	93876	63979	256885
4	अवधि का कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और / या असाधारण मदों के पश्चात)	60274	40167	165374
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/हानि सहित) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)			संदर्भ नोट - 2
6	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.09	0.06	0.08
7	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.77	1.24	0.93
8	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38
9	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38
10	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38
11	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38
12	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38
13	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38
14	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38
15	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38
16	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38
17	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)	0.50	0.34	1.38

नोट : 1. उपरोक्त वितरण विवरण 33 एवं 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दत्त तिमाही/छमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राथम्य का सार है। 2. कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि इन्हें-एक ही अर्थ में एक साथ पर लागू नहीं हुआ है।

यूको बैंक कृते  
स्थान : कोलकाता  
दिनांक : 19 अक्टूबर, 2024

विजयकुमार निजुलि कांबळे  
कार्यकारी निदेशक

राजेन्द्र कुमार सावू  
कार्यकारी निदेशक

अश्वनी कुमार  
एग्जिक्यूटिव सीईओ

अश्विनकुमार कुमार्  
अवकाश

www.ucobank.com

## आय और मुनाफा वृद्धि में सुस्ती

पृष्ठ 1 का शेष

वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में इन कंपनियों का कुल शुद्ध मुनाफा 2.6 फीसदी और वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 9.2 फीसदी बढ़ा था। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में आईटी कंपनियों की कुल आय इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 5.7 फीसदी बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपये रही, जो पिछली 5 तिमाही में सबसे तेज वृद्धि है। मगर इन कंपनियों की कुल शुद्ध आय महज 5.7 फीसदी बढ़ी है। आय और मुनाफा वृद्धि में नरमी के बावजूद बीएफएसआई कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से इस क्षेत्र के नतीजों की पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि एक्सिस बैंक ने मार्च 2023 में 1.41 अरब डॉलर में सिटीबैंक इंडिया के रिटेल कारोबार का अधिग्रहण किया था। हमारे नमूने में शामिल 46 बीएफएसआई कंपनियों का कुल शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के 30,953 करोड़ रुपये से 12.2 फीसदी बढ़कर 34,727 करोड़ रुपये रहा।

क्र. सं.	क्रुण खाता संख्या	नाम एवं पूरा पता	क्रुण तिथि	क्रुण सीमा (₹.)	क्रुण समाप्त पर शेष (दिनांक 10-10-2024 तक)	क्रुण वजन (भाग में)
1	7557936896	ज्ञान चंद मीना पुत्र नाथ सिंह मीना, मकान नंबर F38, अरुणा नगर सिविल लाइन्स मजनु का टीला उत्तरी दिल्ली - 110054	20/07/2023	50,000.00	56,026.00	14.48
2	7663258377	एमएस ओमवती पत्नी ज्ञान चंद मीना, एफ 38 ब्लॉक एफ, अरुणा नगर, मजनु का टीला, नई दिल्ली 110054	01/12/2023	13,81,000.00	13,88,060.00	344.23
3	7663174972	अमन एंटरप्राइज, पोस्टाइट श्री अमन कुमार मीना पुत्र ज्ञान चंद मीना, हाउस नंबर 38, प्रथम फ्लोर, एफ ब्लॉक, अरुणा नगर, मजनु का टीला, नई दिल्ली-110054 के माध्यम से	01/12/2023	7,16,600.00	7,72,799.00	129.07
4	7663397831	तेज सिंह मीना पुत्र हर लाल मीना, 267 कोली मोहल्ला, मैनापुरा, भरत पुर, राजस्थान- 321409	12/09/2023	7,44,000.00	8,19,703.00	143.96
5	7602034844	हेमंत कुमार पुत्र मोहिंदर सिंह मीना, आरजेडजी 560 हेमंत सदन, लोडिया मार्ग राज नगर 2, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110077	01/12/2023	1,10,000.00	1,00,954.00	18.00

इंफिनिटी बैंक, रानी बाग शाखा

## बैंक ऑफ महाराष्ट्र

### Bank of Maharashtra

दिल्ली आंचलिक कार्यालय: भूतल, प्लेट बी ब्लॉक 04, एनपीसीसी ईस्ट किडबई नगर, नई दिल्ली-110023, विधिक विभाग, फोन: (011) 26164817 / 26197789; फैक्स (011) 26171554; ई-मेल: legal\_de@mahabank.co.in

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501 शिवाजीनगर, पुणे-411005

---

## अनडिलीवर्ड मांग नोटिस

शाखा का नाम	कर्जदार का नाम और पता	प्रतिभूति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख
यमुना विहार शाखा	मेसर्स ए वन पेपर एंटरप्राइजेज अपने मालिक - श्री अमित शर्मा के माध्यम से तीसरी मंजिल, प्लेट नंबर 3/2, गली नंबर 9, प्रताप नगर, पूर्वी दिल्ली - 110091	प्राथमिक प्रतिभूति स्टॉक और बही ऋणों का रेहन CERSAI ID: 200063352614	10.10.2024
	अन्य पता: श्री अमित शर्मा पुत्र श्री शेर सिंह शर्मा, एन-22/बी-1, पहली मंजिल, शाहदरा, दिल्ली - 110095	संपादित प्रतिभूति बिक्री विलेख संख्या 1723 दिनांकित 25.03.2022 द्वारा श्री अमित शर्मा पुत्र श्री शेर सिंह शर्मा द्वारा स्वामित्व मांग उल्लंघनपूर, निकट काली माता मंदिर आबादी एरिया, जी.टी. रोड, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 स्थित संपत्ति संख्या 863-ए का निर्मित दूसरा तल छत अधिकारों सहित, प्लॉट संख्या 863, खसरा संख्या 10 में से, मांग 85 वर्ग गज (71.07 वर्ग मीटर) का व्यायसंगत बंधन और सीमाई निर्माणाधीन पूर्व अन्य की संपत्ति	15.10.2024
	अन्य पता: श्री अमित शर्मा पुत्र श्री शेर सिंह शर्मा, एच नंबर 863-ए, दूसरी मंजिल, शाहदरा, दिल्ली - 110032	संश्लेषक संख्या 1723 दिनांकित 25.03.2022 द्वारा श्री अमित शर्मा पुत्र श्री शेर सिंह शर्मा द्वारा स्वामित्व मांग उल्लंघनपूर, निकट काली माता मंदिर आबादी एरिया, जी.टी. रोड, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 स्थित संपत्ति संख्या 863-ए का निर्मित दूसरा तल छत अधिकारों सहित, प्लॉट संख्या 863, खसरा संख्या 10 में से, मांग 85 वर्ग गज (71.07 वर्ग मीटर) का व्यायसंगत बंधन और सीमाई निर्माणाधीन पूर्व अन्य की संपत्ति	₹. 9,49,306.80
	अन्य पता: श्री अमित शर्मा पुत्र श्री शेर सिंह शर्मा, एच नंबर 10/40, गली नंबर 12, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032	संश्लेषक संख्या 1723 दिनांकित 25.03.2022 द्वारा श्री अमित शर्मा पुत्र श्री शेर सिंह शर्मा द्वारा स्वामित्व मांग उल्लंघनपूर, निकट काली माता मंदिर आबादी एरिया, जी.टी. रोड, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 स्थित संपत्ति संख्या 863-ए का निर्मित दूसरा तल छत अधिकारों सहित, प्लॉट संख्या 863, खसरा संख्या 10 में से, मांग 85 वर्ग गज (71.07 वर्ग मीटर) का व्यायसंगत बंधन और सीमाई निर्माणाधीन पूर्व अन्य की संपत्ति	(रुपये नौ लाख उनन्नास हजार तीन सौ छह और अस्सी पैसा मात्र) + 10.10.2024 से 12.30% वार्षिक की दर से आगे की ब्याज + एनपीए की तारीख अर्थात 08.06.2024 से वहन लागत, प्रभार एवं व्यय

हमने आपको वित्तीय आश्वासनों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा पहले ही मांग नोटिस जारी किया है, जिसे बिना डिलीवर हुए/अस्वीकार कर दिया गया है। आप अपने लिए संबोधित मांग नोटिस/कारक को अधोहस्ताक्षरी और/या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यमुना विहार शाखा, दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं और आपकी यह भी सलाह दी जाती है कि सरकारी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए उपरोक्त उल्लिखित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर ब्याज और लागत आदि सहित कुल बकाया राशि का भुगतान करें। कृपया ध्यान दें कि सरकारी अधिनियम-2002 के प्रावधान के अनुसार हमारी आगे की कार्रवाई बैंक के कुल बकाया राशि के पुनर्मुतांत तक जारी रहेगी।

दिनांक: 19.10.2024  
स्थान: नई दिल्ली  
हस्ता./- अश्विनी ए कुलकर्णी  
प्राधिकृत अधिकारी: (सरकारी अधिनियम, 2002) दिल्ली क्षेत्र